



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/EMAIL: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502

12 अप्रैल 2021

रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 12 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र और चयनित कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के एमडी / सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें की। इस बैठक में उप गवर्नर श्री एम. के. जैन, श्री एम. राजेश्वर राव और रिज़र्व बैंक के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने प्रारंभिक संबोधन में, गवर्नर महोदय ने वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करते हुए चल रही बहाली को आगे संबल प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए हालिया नीतिगत उपायों पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने उत्पन्न आर्थिक सुधार को बनाए रखने में ऋण प्रवाह के महत्व पर बात की और बैंकों को उभरती हुई स्थिति पर नजर रखने तथा अपनी कारोबारी निरंतरता बनाए रखने, कारोबार कार्यनीतियों को तेज करने और तुलन पत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त पूंजी जुटाने के लिए उपाय जारी रखने के लिए सूचित किया। उन्होंने बैंकों द्वारा संचालित भुगतान और अन्य आईटी प्रणालियों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने और संवर्धित दक्षता और लचीलेपन के लिए उन्हें मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि सहज और निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके।

बैठक में अन्य विषयों के साथ में, निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

1. कोविड समाधान ढांचा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति;
2. दबावग्रस्त परिसंपत्तियों पर दृष्टिकोण;
3. पूंजीगत संवर्धन;
4. चलनिधि परिदृश्य और मौद्रिक संचरण;
5. दबावग्रस्त क्षेत्रों, एमएसएमई, खुदरा, इत्यादि के साथ विभिन्न क्षेत्रों में ऋण प्रवाह।

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/47

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक